

	<p>माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय Office of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी, चेन्नई अंचल Tamilnadu & Puducherry, Chennai Zone जी एस टी भवन, सं. 26/1, महात्मा गांधी रोड, चेन्नई – 600 034 GST Bhawan, No.26/1, Mahatma Gandhi Road, Chennai –600 034 ई-मेल / Email: ccaestt-prcco@gov.in/cca.estt.section@gmail.com दूरभाष / Ph: 28331011 फैक्स / Fax: 044-28331050/1015</p>	
---	---	---

GCCO/CCA/RECR/10/2025-CCAESTT-O/o Pr CC-CGST-ZONE-CHENNAI

सूचना / NOTICE

विषय: कर्मचारी चयन आयोग, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2024 के माध्यम से निरीक्षक(वस्तु और सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के पद के लिए अभ्यर्थियों का आबंटन- दस्तावेज़ सत्यापन/शारीरिक क्षमता परीक्षा के स्थान और तिथि की सूचना- संबंधित।

Sub: SSC CGLE 2024 - Allocation of candidates through Staff Selection Commission, Combined Graduate Level Examination, 2024 to the post of Inspector of GST & Central Excise- Intimation of date and venue of Document Verification/ Physical Test – reg.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), नई दिल्ली ने परिणामों के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन / शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण आयोजित करने के लिए सीजीएसटी इंस्पेक्टर (जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के पद के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित 57 उम्मीदवारों को आवंटित किया है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2024 आयोजित की गई।

The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), New Delhi has allocated 57 candidates recommended by the Staff Selection Commission for the post of CGST Inspector (GST & Central Excise) for conducting Document Verification / Physical Endurance Test based on the results of the Combined Graduate Level Examination, 2024 conducted by Staff Selection Commission.

2. जी.एस.आर. 1172(E) दिनांक 26.12.2016 के अनुसार सीमाशुल्क के निरीक्षक (वस्तु और सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) की श्रेणी में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शारीरिक क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना और उनका निम्नलिखित शारीरिक मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है।

As per G.S.R. 1172(E) dated 26.12.2016, the candidates are required to pass physical test and possess physical standard as described below, for appointment to the grade of Inspector of GST and Central Excise.

	शारीरिक मानक (न्यूनतम) Physical standards (Minimum)	शारीरिक क्षमता परीक्षा Physical test
पुरुष अभ्यर्थी Male Candidate	Height -157.5 cms (height relaxable by 5 cms in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes) Chest - 81 cms (fully expanded with minimum expansion of 5 cms)	Walking – 1600 metres in 15 Minutes Cycling – 8 K.M. in 30 Minutes
महिला अभ्यर्थी Female Candidate	Height -152 cms (height relaxable by 2.5 cms in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes) Weight- 48 kg. (weight relaxable by 2 k.g. in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes)	Walking – 1 km in 20 Minutes Cycling – 3 K.M in 25 Minutes

3. इस संबंध में, अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को 26.03.2025 को सुबह 09.00 बजे जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त के कार्यालय, 26/1, महात्मा गांधी रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नई - 600 034 पर दस्तावेज़ सत्यापन / शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण (PET) 27.03.2025 को सुबह 07.30 बजे उसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे शारीरिक परीक्षण के लिए जूते लेकर आएँ। दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण, चेन्नई सीजीएसटी अंचल द्वारा दस्तावेजों की प्राप्ति और सत्यापन के अधीन है।

In this regard, the candidates figuring in **Annexure -I** are directed to report for Document Verification/ Physical Endurance Test **on 26.03.2025 at 09.00 A.M at Office of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise, 26/1, Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034 without fail. The Physical Endurance Test (PET) will be held on 27.03.2025 from 07.30 A.M. at the same venue. Candidates are requested to bring shoes for the Physical Test.** The process of Document Verification is subject to receipt and verification of dossiers by the Cadre Controlling Authority, Chennai CGST Zone.

4. अनुप्रमाणन प्रपत्र विधिवत् भर कर दस्तावेज़ सत्यापन/शारीरिक क्षमता परीक्षा के समय तीन प्रतियों में बिना किसी चूक के अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

The Attestation Form, in triplicate (3 copies), may be duly filled in all respects (by hand only) and produced at the time of document verification/physical test to the undersigned without fail.

5. अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन/शारीरिक क्षमता परीक्षा के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ तिन प्रतियों के साथ अवश्य प्रस्तुत करें:

The candidates should bring the following documents (in original) along with 1 set of photocopy at the time of Document Verification/ Physical Test:

क) जन्म तिथि दर्शाते हुए मैट्रिक / हाई स्कूल प्रमाण पत्र ।

a) Matriculation / High School Certificate showing Date of Birth.

ख) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

b) Academic Certificates in support of Educational Qualification.

ग) छायाप्रतियों के साथ निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में मूल जाति / समुदाय प्रमाण पत्र । (एसएससी अधिसूचना के अनुसार कट ऑफ तिथि)

c) Original Caste/ Community Certificate in case of SC/ST/OBC in the prescribed form along with the photocopies. (Crucial date as per SSC Notification)

घ) विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) अभ्यर्थी के मामले में प्रमाण पत्र ।

d) Certificate in case of Person with disabilities (Divyangjan) candidate.

ङ) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र। (एसएससी अधिसूचना के अनुसार कट ऑफ तिथि)

e) Income and Assets Certificate for EWS Category Candidate. (Crucial date as per SSC Notification)

च) केन्द्र या राज्य सरकार के दो राजपत्रित अधिकारियों या वृत्तिकाग्राही मजिस्ट्रेट से चरित्र प्रमाण पत्र । (मूल में 3 सेट)

f) Character Certificate from two Gazetted officers of the Central or State Government or Stipendiary Magistrates. (3 sets in original for **minimum 2 years**)

छ) केन्द्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों या वृत्तिकाग्राही मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण पत्र। (मूल में 3 सेट)

g) Identity Certificate from a Gazetted officer of the Central or State Government or Stipendiary Magistrates. (3 sets in original for **minimum 2 years**)

ज) स्वस्थता प्रमाण पत्र उस चिकित्सक से प्राप्त किया जाना है जो सिविल सर्जन के पद से नीचे न हो । महिला उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र महिला चिकित्सक प्राप्त किया जाना है जो सिविल सर्जन के पद से नीचे न हो। (अनुलग्नक 'ख') संबंधित सीएमओ से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस पत्र के आधार पर संबंधित उम्मीदवारों की मेडिकल जांच करें। यदि संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी के कार्यालय को किसी अन्य प्राधिकार पत्र की आवश्यकता हो तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से ईमेल ccaestt-prcco@gov.in के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

h) Certificate of Fitness from a physician not below the rank of a Civil Surgeon / Chief Medical Officer (CMO). Female candidates should get the certificate from a female physician not below the rank of a Civil Surgeon. (Annexure II). The CMOs concerned are also requested to take up the Medical examination of the candidates concerned on the strength of this letter. In case, any other authority letter is required by the office of the medical authority concerned the undersigned may be contacted through email ccaestt-prcco@gov.in

Kindly note : A certificate to the effect that the candidate is free from colour blindness duly certified by Civil Surgeon / Chief Medical Officer is mandatory.

झ) यदि उम्मीदवार केंद्र सरकार/राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के तहत किसी भी कार्यालय में कार्यरत है तो वर्तमान नियोक्ता से डीवी में भाग लेने के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट/एनओसी। इस नोटिस के संदर्भ में प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

i) Discharge Certificate/ NOC to attend DV from current employer in case the candidate is employed in any of the offices under the Central Government/State Government, Autonomous Body, and Public Sector Undertaking. The certificate should be obtained with reference to this Notice.

ञ) आधार कार्ड और पैन कार्ड।

j) Aadhar card and PAN Card.

ट) 5 से.मी x 7 से.मी आकार की रंगीन तस्वीरों की 3 सेट अनुप्रमाणन प्रपत्रों पर चिपकाए जाने हैं ।

k) 3 Sets of Colour photographs of size **5cm x 7cm** to be pasted on the Attestation Forms.

3 Sets of Colour passport size photographs.

ठ) एसएससी प्रवेश पत्र की प्रतियाँ ।

l) Copies of SSC admit cards.

6. वैसे अभ्यर्थी जो पहले से समान मन्त्रालय/विभाग में समान श्रेणी (निरीक्षक सिजिएसटी, निवारक अधिकारी, परीक्षक) में कार्यरत हैं और शारीरिक परीक्षा से छुट चाहते हैं वे अपने वर्तमान नियोजक से इस शारीरिक परीक्षा उतिर्नता के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। प्रमाणपत्र इस सूचना के संदर्भ में प्राप्त किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस आशय का एक प्रमाण पत्र अनिवार्य है कि उम्मीदवार सिविल सर्जन / मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित रंग अंधापन से मुक्त है।

Candidates who are already working in the same Ministry/Department at similar post (Inspector CGST, PO, Examiner) and want to avail exemption from the Physical Test, should produce a certificate from the current employer regarding passing the Physical Test. Certificate should be obtained with reference to this Notice. **However, a certificate to the effect that the candidate is free from colour blindness duly certified by Civil Surgeon / Chief Medical Officer is mandatory.**

7. दस्तावेज़ सत्यापन/शारीरिक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में ऐसा माना जाएगा की अभ्यर्थी विभाग में नियुक्ति का इच्छुक नहीं है तथा उसके आवंटन को निरस्त किया जाएगा।

In the event of not reporting on the prescribed date for the Document Verification/Physical Test, it will be presumed that you are not interested in accepting the offer of appointment in the department and your nomination will be treated as cancelled.

8. उम्मीदवारों को सूचना उम्मीदवार द्वारा एसएससी को दिए गए ईमेल और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी भेजी जा रही है। उम्मीदवार संलग्न सत्यापन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और शारीरिक परीक्षण में भाग लेने के समय विधिवत भरे हुए फॉर्म जमा कर

सकते हैं। इस नोटिस के साथ सभी फॉर्म <https://gstchennai.gov.in/promotion-posting-transfer.php> से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

Intimation to the candidates is being dispatched through Email given by the candidate to the SSC and also through the social media platform created for this purpose. The candidates may download the enclosed attestation forms and submit the duly filled in forms at the time of attending physical tests. All forms along with this Notice may be downloaded from <https://gstchennai.gov.in/promotion-posting-transfer.php>.

9. अपरिहार्य परिस्थितियों में दस्तावेज़ सत्यापन/शारीरिक परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दिया जाता है कि वे चेन्नई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वेबसाइट व अपने ईमेल को नियमित रूप से देखते रहें।

In the event of unavoidable circumstances, the Document Verification/ Physical Test may be postponed/ rescheduled. Accordingly, candidates are advised to keep checking the website of Chennai Central Excise and their individual email.

Digitally signed by

C THIYAGARAJAN

Date: 20-03-2025

16:59:48

(सी. त्यागराजन /C THIYAGARAJAN)

अपर आयुक्त (पी.आर. सी.सी.ओ /ADDITIONAL COMMISSIONER (PR. CCO))

सेवा में / To

अभ्यर्थियों को (अलग्नक 'क' पर दी गई सूची के अनुसार)

The candidates / As per the list enclosed as Annexure -I)

संलग्न / Encl:

1. अनुलग्नक 'क' / Annexure-I (List of Candidates)
2. अनुलग्नक 'ख' / Annexure -II (Medical Pro-forma)
3. अनुप्रमाणन प्रपत्र / Attestation Form
4. चरित्र प्रमाण पत्र / Character Certificate
5. पहचान प्रमाण पत्र / Identity Certificate
6. वैवाहिक स्थिति प्रमाण पत्र / Marital Status Certificate

सभी प्रपत्र एवं संलग्नक चेन्नई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वेबसाइट - <https://gstchennai.gov.in/promotion-posting-transfer.php> से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

All forms & enclosures can be downloaded from Chennai Central Excise Website - <https://gstchennai.gov.in/promotion-posting-transfer.php>

प्रतिलिपि / Copy to:

अधीक्षक (कंप्यूटर अनुभाग), प्र० मु० आ० कार्यालय, चेन्नई वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
The Superintendent (Computer Section), Pr.CCO for displaying on the website.

ANNEXURE-I

S.NO.	ROLL NO	NAME OF THE CANDIDATE	DOB	RANK
1	8201043187	A V SHRIRAM BABU	02-08-1999	SL\II\13825
2	8207010934	ABDULLAH M	16-05-2000	SL\II\05013
3	8201023687	ABHISHEK AGARWAL	26-06-1999	SL\II\00891
4	8201016831	ABHISHEK KUMAR	17-03-1998	SL\II\05339
5	8201013437	AHMED SAHIB M L	10-04-1995	SL\II\16302
6	4205060443	AMAN KUMAR MANDAL	14-11-1998	SL\II\01678
7	8201047390	B MANOJKUMAR	05-07-2000	SL\II\04274
8	8201030688	BABU RAM G	12-07-1997	SL\II\04188
9	8201014167	BHAGIRATH JANGU	16-06-2001	SL\II\00429
10	8201040179	BINIT KUMAR	04-03-1998	SL\II\02576
11	8201041667	DASARI NAVEEN CHANDRA	16-04-1997	SL\II\01234
12	8202005810	DHINAKAR M	14-06-2000	SL\II\03673
13	8201038876	DINESH M	08-02-1995	SL\II\01062
14	8207003377	DIVYA K	12-07-2002	SL\II\05244
15	8201006154	GAURAV	07-07-1998	SL\II\00159
16	8201018340	GAUTAM KUMAR	11-02-2000	SL\II\04366
17	8201002069	GOKULKUMAR K	03-06-2002	SL\II\03783
18	8202004798	GOWTHAM B	23-06-1997	SL\II\03991
19	8201052157	GURU PRASATH S	12-08-1999	SL\II\05498
20	8008010892	HANUMANTHU BALA SUBRAMANYAM	22-10-2001	SL\II\04642
21	8205013264	JEEVA B	23-01-2001	SL\II\05473
22	8201042298	KAUSTAV DAS	15-07-1997	SL\II\12612
23	8206008383	KEVIN RAJ B	28-08-2000	SL\II\03480
24	8201049795	LAVANYA S	28-03-1996	SL\II\05305
25	8204001251	LINGESH S	12-02-2000	SL\II\03888
26	8204015270	M DHAVAPRAVEENRAJ	01-03-1999	SL\II\12578
27	8204016923	M MANISH KUMAR	23-07-2001	SL\II\05794
28	8206013780	MAHARAJA D	20-12-1996	SL\II\02936
29	8201009959	MANOJ	15-08-1999	SL\II\07336
30	8206002343	MOHAMEDMANSOOR A	08-07-1997	SL\II\03992
31	8201035192	MUKHTAR AHMAD	05-01-1996	SL\II\01536
32	8204016224	MUTHUMARI R	09-05-1998	SL\II\10758
33	8206009263	NANDHA KUMAR D	19-03-1998	SL\II\05513
34	8206010225	NEERAJ SINGH KIROULA	24-01-1998	SL\II\00287

35	2405032391	NIRMAL KUMAR MEENA	02-07-1998	SL\II\05420
36	8201001424	OMESH MISHRA	08-03-2000	SL\II\04341
37	8201038552	PANKAJ MEHRA	03-03-1991	SL\II\03854
38	8201033627	R A GOKUL	09-11-1998	SL\II\05172
39	8201056035	RISHABH VARMA	10-07-1996	SL\II\03736
40	8201004366	RISHITOSH KUMAR	09-07-1997	SL\II\16184
41	2002019663	SANDEEP GAHTORI	27-08-1999	SL\II\02372
42	8201015566	SARANYAA M	22-04-2001	SL\II\12706
43	8202011526	SATHE AKSHAY TANAJIRAO	30-07-1996	SL\II\01821
44	8207005002	SELVAPRIYA M	21-03-2000	SL\II\04033
45	8206011189	SHREE RAM A	12-10-2000	SL\II\11974
46	8201044723	SHRIOM KOURAV	01-01-1997	SL\II\05070
47	8205011609	SIVAKUMAR M	23-05-1995	SL\II\03651
48	8201024561	SOUMYA SAHOO	07-04-1996	SL\II\11155
49	8201053522	SRI NAVANEETHA NANDHINI S	15-12-1996	SL\II\05044
50	8207012884	STEBIN FRANCO P	07-11-2000	SL\II\04853
51	8201044005	SUDHANSHU RAJ SAGAR	01-05-1993	SL\II\02727
52	8204006119	SUNDARA MOORTHY T	11-08-1999	SL\II\02853
53	8205006181	SUWETHA P	06-06-2002	SL\II\02333
54	8201048764	THILAK S	14-03-2001	SL\II\05462
55	8201016920	VARSHA KUMARI	03-03-2002	SL\II\05528
56	8201001002	VARUN KUMAR	10-08-1997	SL\II\03631
57	8201035789	VIGNESH R V	21-05-2000	SL\II\05788

ANNEXURE – II
CANDIDATE’S STATEMENT AND DECLARATION

The candidate must make the statement required below prior to his/her Medical Examination and must sign the declaration appended thereto. His/her attention is specifically drawn to the warning contained in the NOTE below:

1. State your name in full :
(In Block Letters)
2. State your age and place of Birth :
3. (a) Have you ever had small-pox intermittent :
or any other fever, enlargement or suppuration
of glands, spitting of blood, asthma, heart
disease, lung disease, fainting attacks,
rheumatism, appendicitis ? OR.
- (b) any other disease or accident requiring :
confinement to bed and medical or surgical
treatment.
4. When were you last vaccinated? :
5. Have you or any of your near relations been :
afflicted with consumption, scrofula, gout,
asthma, fits, epilepsy or insanity.
6. Have you been examined and declared Unfit :
for Govt. Service by a Medical Officer/ Medical
Board within last 3 years.
7. Have you suffered from any form of Nervousness :
due to overwork or any other cause?
8. Furnish the following particulars Concerning :
your family

Father’s age if living and state of health	Father’s age at the time of death and the cause of death	No. of Brothers living, their ages & state of health	No. of Brothers dead their ages at death & causes of death.
Mother's age if living and state of health	Mother's age at the time of death and the cause of death	No. of Sisters living, their ages & state of health	No. of Sisters dead their ages at death & causes of death.

I declare all the above answers to be, to the best of my knowledge and belief, true and correct.

I also solemnly affirm that I have not received a disability certificate/pension on account of any disease or other conditions.

Signed in my presence

SIGNATURE OF THE CANDIDATE

SIGNATURE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER/CIVIL SURGEON

NOTE: The candidate will be held Responsible for the accuracy of the above statement, By willfully suppressing any information, he/she will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claim to superannuation allowance or gratuity.

MEDICAL CERTIFICATE

I hereby certify that, I have examined Sri/Smt. _____ S/o/D/o/W/o _____ a candidate for Employment in the _____ Department as _____ and cannot discover that he/she has any disease (communicable or otherwise), constitutional weakness or bodily infirmity except _____. I do not consider this a disqualification for employment in the office of the _____ Department. His/her age according to his/ her own statement is _____ years and by appearance about _____ years.

Date :

Place :

Office

Seal :

SIGNATURE OF THE CHIEF MEDICAL
OFFICER / CIVIL SURGEON WITH SEAL

MEDICAL CERTIFICATE TO BE FURNISHED FOR APPOINTMENT TO THE POST OF INSPECTOR

Name of the Candidate:		Paste a recent passport size photograph
Roll No.		
Rank No.		
Signature of the Candidate		
Right Thumb Impression		(Photo to be attested by the Chief Medical Officer/Civil Surgeon)

FREE FROM COLOUR BLINDNESS CERTIFICATE

Certified that I have examined Mr/Ms ----- whose signature is appended above, and certify that his/her colour vision is Normal/Defective (strike of which is not applicable)

(Seal of the Chief Medical Officer/Civil Surgeon)		(Signature of Chief Medical Officer/Civil Surgeon)	
		Name	
Place		Reg. No.	
Date			

ATTESTATION FORM

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Affix signed passport size (5cms X 7 cms) approx copy of recent photograph</p> </div>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p style="text-align: center;">“WARNING”</p> <p>The furnishing of false information or suppression of any factual information in the Attestation Form would be a disqualification, and is likely to render the candidate unfit for employment under the Government.</p> <p>If detained, arrested, prosecuted, bound down, fines convicted, debarred, acquitted etc., subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated immediately to the authorities to whom the Attestation Form has been sent earlier, failing which, it will be deemed to be suppression of factual information.</p> <p>If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the Attestation Form comes to notice at any time during the service of a person, his/her services would be liable to be terminated.</p>	
1	Name in full (in block capitals) with aliases, if any, (Please indicate if you have added or dropped in any stage, any part of your name or surname	Surname	Name
2	Present Address in full (i.e. Village, Thana and District, or House No., Lane/Street/Road & Town):		
3(a)	Home Address in full (i.e. Village, Thana and District, or House Number, Lane/Street/ Road and Town and name of District Headquarters)		
(b)	If originally a resident of Pakistan / Bangladesh (erstwhile East Pakistan) the address in that country and the date of migration to Indian Union.		
4	Adhaar Card No. (if available)		
5	PAN No. (if available)		
6	Nationality		
7.(a)	Date of Birth		
(b)	Present Age		
(c)	Age at Matriculation		
8. (a)	Place of birth, district and state in which situated		

(b)	District and State to which you belong					
(c)	District and State to which your father originally belong					
9.(a)	Your Religion					
(b)	Are you a member of a Scheduled Caste /Scheduled Tribe/ Other Backward Classes ? (Answer Yes/No)					
10	Particulars of places (with periods of residences) where you have resided for more than one year at a time during the preceding five years. In case of stay abroad (including Pakistan), particulars of all places where you have resided for more than one year after the age of 21 years should be given:					
From	To	Residential address in full (i.e. Village, Thana and District, or House No., Lane/Street/Road & Town)		Name of the District Headquarters of the place mentioned in the preceding Column.		
11.	Name (in full & aliases if any)	Nationality (by birth or domicile)	Place of birth	Occupation, if employed, give designation and official address	Present postal address (if dead, give last address)	Permanent Home address
a)Father						
b)Mother						
c)Spouse						

12.	Information to be furnished with regard to son(s) and/or daughter(s), in case they are studying/living in a Foreign Country:			
Name	Nationality (by birth or by domicile)	Place of birth	Country in which studying/living with full address	Date from which studying/ living in the country mentioned in the previous column
13.	Educational Qualification showing places of education with years in Schools and Colleges since 15 th year of age.			
Name of School/ College with Full Address		Date of entering	Date of leaving	Examination passed
14. (a)	Are you holding or have any time held an appointment under Central or State Government or a Semi-Government or a Quasi Government body or an autonomous body or a Public Sector Undertaking or a private firm or Institution? If so, give full particulars with date of employment up-to-date			
Period		Designation and Emoluments and nature of Employment	Full Name and Address of Employer	Reasons for leaving previous service
From	To			
14.(b)	<p>If the previous employment was under the Government of India/State Government/ Undertaking owned or controlled by the Government of India or a State Government/an autonomous body/University/Local Body.</p> <p>If you have left service on giving a month's notice under Rule 5 of CCS (Temporary Service) Rules 1965, or any similar corresponding rules, where any disciplinary proceedings framed against you, or had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time you gave notice to termination of service, or at a subsequent date(s), before your service actually terminated?</p>			

15. (i)	(a)	Have you ever been kept under detention?	Yes/No
	(b)	Have you ever been arrested?	Yes/No
	(c)	Have you ever been prosecuted? (i.e. has a charge sheet in a criminal case been filed against you in any court of law)	Yes/No
	(d)	Is any original case pending against you in any Court of Law at the time of filling up this Attestation Form?	Yes/No
	(e)	Have you ever been convicted by a Court of Law for any offence?	Yes/No
	(f)	Whether discharged/expelled/withdrawn from any training/institution under the Govt. or otherwise.	Yes/No
	(g)	Have you ever been rusticated by any University or any other educational authority/ institution.	Yes/No
	(h)	Have you ever been debarred / disqualified by any Public Service Commission/ Staff Selection Commission for any of its examinations/selections?	Yes/No
(ii)		If the answer to any of the above mentioned is 'YES', give full particulars of the case/arrest/detention/fine/conviction sentence/punishment etc., and/or the nature of the case pending in the Court/University/Educational Authority etc., at the time of filling up this attestation form	
Notes:	(i)	Please also see the 'WARNING' at the top of this attestation form.	
	(ii)	Specific answers to each of the questions should be given by striking out 'YES' or 'NO' as the case may be.	
16.	Names of two responsible persons of your locality or two references to whom you are known with Designation, full Address and Mobile/Landline no.)	1)	
		2)	
DECLARATION			
<p>I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am fully aware that by providing false information or suppressing material information while filling this form, the authorities have full right to terminate my appointment letter and I am also liable for appropriate criminal/civil/legal action as a consequence.</p> <p>I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under Government.</p>			
Place:			
Date:		Signature of the candidate	

The Attestation Form should be complete in all respects. Incomplete forms will be summarily rejected.

CHARACTER CERTIFICATE

Certified that I have known Shri / Smt. _____
son / wife / daughter of _____ for the last
_____ years / months and that to the best of my knowledge and belief he / she
bears reputable character and has no antecedent which render him / her unsuitable
for Government employment.

Shri / Smt. _____ is not
related to me.

Date:

Signature:

Place:

Designation:

CHARACTER CERTIFICATE

Certified that I have known Shri / Smt. _____
son / wife / daughter of _____ for the last
_____ years / months and that to the best of my knowledge and belief he / she
bears reputable character and has no antecedent which render him / her unsuitable
for Government employment.

Shri / Smt. _____ is not
related to me.

Date:

Signature:

Place:

Designation:

IDENTITY CERTIFICATE

CETIFICATE TO BE SIGNED BY ONE OF THE FOLLOWING:-

- i) Gazetted Officers of Central of State Government.
- ii) Members of Parliament or State Legislature belonging to the Constituency where the candidate or his parent/guardian is ordinarily resident:
- iii) Sub-Divisional Magistrate/Officers
- iv) Tahsildars or Naib/Deputy Tahsildars authorized to exercise Magisterial powers;
- v) Principal/Headmaster of the recognised School/College/Institution where the candidate studied last.
- vi) Block Development Officers vii) Post Masters viii) Panchayat Inspectors

Certified that I have known Shri./Smt/Kum. _____

son/daughter of Shri. _____ for the past _____ years and _____ months and that to the best of my knowledge and belief the particulars furnished by him/her are correct.

PLACE:

SIGNATURE

DATE:

Designation or Status & Address

TO BE FILLED BY THE OFFICE

- i) Name, Designation and Full Address of the appointing authority
- ii) Post for which the candidate is being considered

FORM OF DECLARATION (APPLICABLE TO BOTH SEXES)

Shri / Smt. / Kumari _____ declares:

- i) That I am unmarried / a widower / a widow.
- ii) That I am married and have only one spouse living.
- iii) That I have entered into and contracted a marriage with another person having a living spouse. Application for grant of exemption is enclosed.
- iv) That I have entered into and contracted a marriage with another person during the life time of my spouse. Application for grant of exemption is enclosed.

I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment, I shall be liable to be dismissed from service.

Date:

Signature

NOTE: Please delete clause / clauses not applicable.

* applicable in the case of clause (i), (ii) & (iii) only.

Application for grant of exemption (vide Para 1 (iii) & (iv) of the declaration)

To,

Sir / Madam,

I request that in view of the reasons stated below, I may be granted exemption from the operation of restriction on the recruitment to service of a person having more than one wife living / wife who is married to a person already having one or more living.

Yours faithfully,

Signature